

This question paper contains 8 printed pages]

Your Roll No.

1392

B.A. (Prog.)/I

E-I

ECONOMICS—Paper I

(Principles of Micro-economics)

(Admissions of 2006-2007 and onwards)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note :— Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

Attempt any Five questions.

All questions carry equal marks.

कोई पाँच प्रश्न कीजिये ।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

P.T.O.

1. (a) Explain the Production Possibility Curve (PPC). What does its slope signify ?

(b) Due to 5 fall in the price of a commodity, its demand rises by 40 units and become 100 units. If new price is Rs. 15, then find the price elasticity of demand.

(c) Define Opportunity Cost with examples. 10+5+5

(अ) उत्पादन सम्भावना वक्र का वर्णन कीजिए तथा इसके ढलान का क्या महत्व है ?

(ब) एक वस्तु की कीमत में 5 रुपये कम होने पर माँग में 40 इकाइयों की वृद्धि होकर माँग 100 इकाइयाँ हो जाती है । यदि नई कीमत 15 रुपये है तो माँग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए ।

(स) अवसर लागत को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए ।

2. (a) Differentiate between Price Elasticity and Income Elasticity of demand.

(b) What is the meaning of zero price elasticity of demand and infinite price elasticity of demand ?

(c) What is Price Control ? How does it lead to Black-marketing ?

20

(अ) माँग की कीमत लोच और माँग की आय लोच में अंतर स्पष्ट कीजिए ।

(ब) माँग की शून्य कीमत लोच तथा माँग की अनन्त कीमत लोच स्थिति का क्या अर्थ है ?

(स) मूल्य नियंत्रण क्या है ? यह किस प्रकार कालाबाजारी में वृद्धि करता है ?

3. (a) Explain the law of Diminishing Marginal Utility.
- (b) Explain the Consumer Equilibrium with the help of indifference curve.
- (c) Explain the difference between Giffen goods and Inferior goods.

8+8+4

(अ) घटती हुई सीमांत उपयोगिता (ह्रासमान) के नियम की व्याख्या कीजिए ।

(ब) अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को समझाइए ।

(स) गिफिन वस्तुओं और घटिया वस्तुओं के बीच अंतर बताइए ।

4. (a) Discuss the relationship between Average Cost and Marginal Cost.
- (b) Define Price effect, Income effect and Substitution effect.

- (c) What does budget line show ? How does it change when prices of two commodities and income change in different directions ?

8+8+4

(अ) औसत लागत तथा सीमांत लागत के बीच संबंध को बताइए ।

(ब) कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव को समझाइए ।

(स) बजट रेखा क्या प्रकट करती है ? दो वस्तुओं के मूल्य तथा आय के विभिन्न दिशाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप बजट रेखा में क्या परिवर्तन आते हैं ?

5. (a) Explain the law of Diminishing returns to factor and Diminishing returns to scale.

(b) Differentiate between Perfect Competition and Monopolistic Competition.

10+10

P.T.O.

(अ) साधन के घटते प्रतिफल तथा पैमाने के घटते प्रतिफल नियम से आप क्या समझते हैं ।

(ब) पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता (एकाधिकारिक) में अंतर कीजिए ।

6. (a) Why is the supply curve of Labour backward bending ? Explain.

(b) Explain the price discrimination of Monopoly. 10+10

(अ) श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ता हुआ क्यों होता है ? वर्णन कीजिए ।

(ब) एकाधिकार के कीमत-विभेद की व्याख्या कीजिए ।

7. (a) Critically examine the theory of Comparative Cost Advantage of International Trade.

(b) What do you understand by protectionism ? What policies does the Govt. adopt to provide protection to our home industries ?

10+10

(अ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत की

आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए ।

(ब) संरक्षणवाद से आप क्या समझते हैं ? अपने घरेलू उद्योगों

को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीतियाँ

अपनाई जाती हैं ?

Write short notes on any two :

10+10

- (a) The Diamond-Water paradox
- (b) Nash Equilibrium
- (c) Cross price elasticity of demand
- (d) Consumer surplus.

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (अ) हीरा-पानी विरोधाभास (डायमण्ड-वाटर पॅराडोक्स)
- (ब) नाश संतुलन
- (स) माँग की तिरछी कीमत लोच
- (द) उपभोक्ता अतिरेक ।